

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा थाना वजीरगंज तथा बिसौली का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में।

थाना वजीरगंज

आज दिनांक 21-07-2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० ओ०पी० सिंह जनपद बदायूं द्वारा थाना वजीरगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान वजीरगंज थानाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह थाना कार्यालय पर मौजूद मिले। तथा दिवसाधिकारी उ०नि० श्री रामेन्द्र सिंह, सीसीटीएनएस पर क०अ० आलोक कुमार, कार्यलेख पर क० कपिल राघव, महिला हेल्प डेस्क पर म०का० सोनिका अहलावत व संतरी पहरा ड्यूटी पर म०का० निकिता शर्मा मौजूद मिले। सर्वप्रथम महोदय द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालग्रह, बैरक, आदि का मुआयना किया गया । महोदय द्वारा थाने का निरीक्षण कर साफ-सफाई तथा अभिलेखों के रखरखाव की प्रशंसा की गयी तथा थानाध्यक्ष वजीरगंज को थाना पर आगन्तुको के लिये उचित व्यवस्था एवं समस्याओ का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया । महिला हेल्प डेस्क अभिलेख को चैक किया गया तथा गहनता से जांचा परखा गया जिसमें आवेदिका/आने वाली पीड़िता का नाम,पता,मो०नं० एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या का निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही एवं समस्या के निदान का विवरण उल्लेखित करने के संबंध में जानकारी दी गयी एवं इसी प्रकार कम्प्यूटर में भी उल्लेख किया जाये। महोदय द्वारा समाधान दिवस रजिस्टर,अपराध रजिस्टर,महिला बीट बुक रजि०,आईजीआरएस रजि०, महिला हेल्प डेस्क अभिलेख, तथा साईबर हेल्प डेस्क रजिस्टर आदि को चैक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । थाना समाधान दिवस पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। व समस्त अधि०/कर्म०गण को ड्यूटी के दौरान बाजार,सर्साफा दुकान, चोराहों,गली,नुक्कड़ों आदि पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा थाना क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण भ्रमणशील रहने तथा पुलिस की सक्रियता बनाये रखने एवं नियमित रूप से बैंक चैकिंग,एटीएम चैकिंग, मुख्य चौराहों/ मुख्य सड़क/ढाबों/ होटल/ बस स्टैंड/पेट्रोल पंप एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर चैकिंग तथा रात्रि गश्त करने तथा आम जनता से अच्छा व्यवहार करने हेतु व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

थाना बिसौली

आज दिनांक 21-07-2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० ओ०पी० सिंह जनपद बदायूं द्वारा थाना बिसौली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान बिसौली थाना प्रभारी श्री बिजेन्द्र सिंह

थाना कार्यालय पर मौजूद मिले। तथा दिवसाधिकारी उ0नि0 श्री विनोद सिंह , सीसीटीएनएस पर क0ऑ0 मौ0 याकूब, कार्यलेख पर का0 नन्हे सिंह, महिला हेल्प डेस्क पर म0का0 रचना व संतरी पहरा ड्यूटी पर का0 रिकू सिंह मौजूद मिले। सर्वप्रथम महोदय द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालग्रह, बैरक, आदि का मुआयना किया गया । महोदय द्वारा थाने का निरीक्षण कर साफ-सफाई तथा अभिलेखों के रखरखाव की प्रशंसा की गयी तथा बिसौली थाना प्रभारी को थाना पर आगन्तुको के लिये उचित व्यवस्था एवं समस्याओ का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया । महिला हेल्प डेस्क अभिलेख को चैक किया गया तथा गहनता से जांचा परखा गया जिसमें आवेदिका/आने वाली पीड़िता का नाम,पता,मो0नं0 एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या का निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही एवं समस्या के निदान का विवरण उल्लेखित करने के संबंध में जानकारी दी गयी एवं इसी प्रकार कम्प्यूटर में भी उल्लेख किया जाये। महोदय द्वारा समाधान दिवस रजिस्टर,अपराध रजिस्टर,महिला बीट बुक रजि0, आईजीआरएस रजि0, महिला हेल्प डेस्क अभिलेख, तथा साईबर हेल्प डेस्क रजिस्टर आदि को चैक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । थाना समाधान दिवस पर प्राप्त प्रार्थना पत्रो को आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। व समस्त अधि0/कर्म0गण को ड्यूटी के दौरान बाजार,सर्साफा दुकान, चोराहों,गली,नुक्कड़ों आदि पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा थाना क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण भ्रमणशील रहने तथा पुलिस की सक्रियता बनाये रखने एवं नियमित रूप से बैंक चैकिंग,एटीएम चैकिंग, मुख्य चौराहों/ मुख्य सड़क/ढाबों/ होटल/ बस स्टैंड/पेट्रोल पंप एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर चैकिंग तथा रात्रि गश्त करने तथा आम जनता से अच्छा व्यवहार करने हेतु व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।